

कृषि विज्ञान केन्द्र की वैज्ञानिक सलाहकार समिति की बैठक का आयोजन

कृषि विज्ञान केन्द्र की वैज्ञानिक सलाहकार समिति की ऑनलाइन बैठक का आयोजन भाकृअनुप-भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉ. बी.पी. मिश्रा जी की अध्यक्षता में आज दिनांक 17.11.2020 को हुई। बैठक में कृषि विज्ञान केन्द्र के गतवर्ष के कार्यकलापों की समीक्षा तथा वर्ष 2021 की कार्ययोजना पर चर्चा की गई। इस अवसर पर कृषि विज्ञान केन्द्र के अध्यक्ष ने निदेशक महोदय के साथ-साथ बैठक में भाग लेने वाले सभी सदस्यों का स्वागत करने के पश्चात पिछली बैठक में सुझाये गये कार्य बिन्दुओं पर हुयी कार्यवाही से अवगत कराया। इसके बाद अध्यक्ष, कृषि विज्ञान केन्द्र ने पिछले वर्ष (अप्रैल 2019 से अक्टूबर 2020) की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की गई तथा श्री राकेश पाण्डे, विषय वस्तु विशेषज्ञ ने वर्ष 2021 की कार्ययोजना प्रस्तुत की। निदेशक महोदय ने प्रगति रिपोर्ट तथा कार्ययोजना की प्रस्तुति के बाद सभी उपस्थित सदस्यों से केन्द्र के कार्यों में और अधिक सुधार लाने के लिये सुझाव आमंत्रित किये तथा स्वयं भी कई महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर सलाह दी। इसमें धान की पराली का यंत्रों द्वारा प्रबन्धन करने के साथ-साथ बायो-डिकम्पोजर से फसल अवशेषों को और तेज गति से गलाने, फसल अवशेषों को खेत में ही मिलाने पर मृदा स्वास्थ्य में सुधार संबंधी कार्यकलापों को और अधिक प्रभावी ढंग से लोगों तक पहुंचाने पर बल दिया। पशु विज्ञान से संबन्धित प्रक्षेत्र परीक्षण व अग्र पंक्ति प्रदर्शनों की संख्या बढ़ाई जाये, कुक्कुट पालन पर अधिक ध्यान दिया जाये, कृषि विज्ञान केन्द्र द्वारा नए एफ.पी.ओ. विकसित किये जायें, महिलाओं के लिये विशिष्ट कार्यक्रम (नारी) के अंतर्गत बायोफोर्टिफाइड आहार तथा पोषण वाटिका का प्रदर्शन किया जाये और एक गाँव को पोषण ग्राम के रूप में विकसित किया जाये। अंत में माननीय निदेशक, भाकृअनुप-भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, डॉ. बी.पी. मिश्रा जी ने कहा कि कृषकों की आय बढ़ाने में कृषि के साथ-साथ कृषि से जुड़े अन्य व्यवसाय यथा पशुपालन, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन आदि आवश्यक भूमिका अदा करते हैं, अतः इन विषयों पर प्रशिक्षण के साथ विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाने में सहयोग दिया जाये जिससे युवा बैंकों के माध्यम से ऋण प्राप्त कर स्वरोजगार प्रारम्भ कर सकें।

इस वैज्ञानिक सलाहकार समिति की बैठक में डॉ संजीव कुमार, निदेशक, केन्द्रीय कुक्कुट अनुसंधान संस्थान, डॉ नीरज श्रीवास्तव, संयुक्त निदेशक कृषि, डॉ जीवन दत्त, अपर निदेशक पशुपालन, श्री अशोक कुमार यादव, उप निदेशक, कृषि, डॉ महेश चंदर, संयुक्त निदेशक प्रसार शिक्षा, डॉ पूतान सिंह, केन्द्र प्रभारी, मुक्तेश्वर कैंपस, डॉ राघवेंद्र सिंह, डॉ शांतनु दुबे, डॉ साधना पाण्डे, अटारी, कानपुर, श्री धर्मेंद्र कुमार मिश्रा, जिला विकास प्रबन्धक, नाबार्ड, श्री मदन मोहन, प्रबन्धक लीड बैंक, बरेली, संस्थान के विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष, बरेली के जिला उद्यान अधिकारी श्री पुनीत कुमार पाठक, प्रगतिशील कृषक श्री ओमप्रकाश आदि सदस्यों ने भाग लिया।

Turn on Original Sound Total non-video participants: 11 Speaker View

Participants (22)

Find a participant

- Krishi Vigyan Kendra Barei... (Me)
- SK Shantanu Kumar Dubey (Host)
- BP B P Mishra
- JA JDA Ag Bareilly
- RK RATAN KAUR
- BS Brajpal Singh
- DD D D A BAREILLY
- DM Dharmendra Mishra
- DB DHO BAREILLY
- Dr R. S. Suman
- DS Dr Sanjeev Kumar Director CARI
- DJ Dr. Jewan Dutt
- DS Dr. Sadhna Pandey, ATARI, Kanp...
- HK Harendra Kumar

Mute Stop Video Participants (22) Chat Share Screen Record Reactions Leave

12:01 17-11-2020